

This Question Paper contains 12 printed pages.
(Section - A, B, C & D)

Sl.No.

12 (H)

(MAY, 2021)
(Old Course)

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 80

सूचनाएँ :

- 1) हस्तलेखन को स्पष्ट लिखिए।
- 2) इस प्रश्नपत्र में चार विभाग हैं A, B, C और D एवं कुल 1 से 53 प्रश्न हैं।
- 3) दाहिनी ओर प्रश्न के अंक दिये गए हैं।
- 4) सूचना के अनुसार आकृतियाँ स्वच्छ, स्पष्ट और उचित प्रमाण में बनाएँ।
- 5) नया विभाग नये पन्ने पर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए।
- 6) केल्क्युलेटर का उपयोग न करें।

विभाग - A

- निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (प्रश्न संख्या 1 से 24) (प्रत्येक का 1 अंक) [24]
 - निम्न विधान सत्य हैं या असत्य बताइए। (प्रश्न संख्या 1 से 4)
- 1) $\sqrt{5}$ यह अपरिमेय संख्या है। [1]
 - 2) $p(x) = 5x^2 + 8x + 3$ में बहुपद की घातांक 3 हैं। [1]

3) यदि $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$, समीकरण युग्म सुसंगत है। [1]

4) यदि $D < 0$ हो तो समीकरण के बीज वास्तविक और समान है। [1]

■ निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। (प्रश्न क्रमांक 5 से 10)

5) म.स.अ. $(120, 23) = \underline{\hspace{2cm}}$. [1]

$(0, 1, 23, 120)$

6) यदि $2x + 3y = 7$ और $3x + 2y = 3$ हो तो $x - y = \underline{\hspace{2cm}}$. [1]

$(4, -4, 2, -2)$

7) द्विघात समीकरण $\sqrt{3}x^2 + 2x - \sqrt{3} = 0$ का विवेचक $\underline{\hspace{2cm}}$ है। [1]

$(4, 12, 16, 20)$

8) $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 \dots$ यह $\underline{\hspace{2cm}}$ प्रकार की श्रेणी है। [1]

(फिबोनाकी श्रेणी, समांतर श्रेणी, शांत श्रेणी, एक भी नहीं)

9) संगतता $ABC \leftrightarrow QRP$ के लिए $\Delta ABC \sim \Delta PQR$, यदि $m\angle A = 50^\circ$, $m\angle C = 70^\circ$ तो

$m\angle R = \underline{\hspace{2cm}}$. [1]

$(50, 60, 70, 80)$

10) $A(x, y)$ का उद्गम बिंदु से अंतर $\underline{\hspace{2cm}}$ है। [1]

$(x^2 + y^2, |x - y|, |x + y|, \sqrt{x^2 + y^2})$

■ निम्न प्रश्नों का उत्तर एक-एक वाक्य में दीजिए। (प्रश्न क्रमांक 11 से 16)

11) द्विघात समीकरण को हल करने की व्यापक रीति किस नाम से जानी जाती है। [1]

12) यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए $T_{25} - T_{20} = 15$ हो तो उस श्रेणी के लिए d निकालिए। [1]

13) दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 25 और 16 हैं। उन त्रिभुजों की परिमितियों का अनुपात कितना होगा। [1]

14) यदि $\tan 5\theta \cdot \tan 4\theta = 1$ तो θ का मान ज्ञात करो। [1]

15) “वृत्त की छेदिका” की परिभाषा लिखिए। [1]

16) $\triangle ABC$ में $AB = 3$, $BC = 4$, $AC = 5$ हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। [1]

■ निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए। (प्रश्न क्रमांक 17 से 22)

17) यदि θ न्युनकोण का माप हो और $\sqrt{3} \sin \theta = \cos \theta$, तो $\theta = \underline{\hspace{2cm}}$. [1]

- | | |
|--------|--------|
| (A) 30 | (B) 45 |
| (C) 60 | (D) 90 |

18) एक घड़ी में मिनिट कांटे की सूई द्वारा 10:30 से 10:37 के समय अंतराल में वृत्ताकार भाग पर बनाए कोण का माप $\underline{\hspace{2cm}}$ है। [1]

- | | |
|--------|--------|
| (A) 28 | (B) 35 |
| (C) 42 | (D) 49 |

19) 2 cm व्यासवाले अर्धवृत्त की परिधि _____ cm है। [1]

(A) $2 + \pi$

(B) π

(C) $3 + \pi$

(D) $\frac{\pi}{2}$

20) मध्यस्थ (M) का सूत्र लिखिए। [1]

(A) $\frac{z + 2\bar{x}}{3} = M$

(B) $\frac{z - 2\bar{x}}{3} = M$

(C) $\frac{2z - \bar{x}}{3} = M$

(D) $\frac{2z - 2\bar{x}}{3} = M$

21) एक सप्ताह में आठ दिन हो उसकी संभावना _____ है। [1]

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

22) 10 cm व्यास वाले और 5 cm तिर्यक ऊँचाई वाले शंकु के आधार का क्षेत्रफल _____ cm^2 है। [1]

(A) 5π

(B) 10π

(C) 25π

(D) 35π

■ योग्य जोडे बनाइए : (प्रश्न क्रमांक 23 से 24)

23)

विभाग - A		विभाग - B	
1	T_n	(a)	$a + nd - d$
		(b)	$a - nd - d$

[1]

24)

विभाग - A		विभाग - B	
1	बहुलक	(a)	$l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times C$
		(b)	$l + \left(\frac{f_1 - f_0}{f_1 - f_0 - 2f_2} \right) \times C$

[1]

विभाग - B

■ किन्हीं नौ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। (प्रश्न क्रमांक 25 से 36) (प्रत्येक के 2 अंक)

[18]

25) युक्लिड की प्रविधि से म.स. (144, 610) ज्ञात कीजिए $ab = \text{म.स.}(a, b) \times \text{l.स.}(a, b)$ सूत्र का उपयोग करके ल.स. ज्ञात कीजिए। [2]

26) i) $\frac{18}{5^3}$ के दशमलव चिन्ह के बाद कितने अंक हैं? [2]

ii) यदि p, q, r भिन्न अविभाज्य पूर्णांक हो तो उनका ल.स. कितना होगा?

27) द्विघात बहुपदी $p(x) = x^2 - 5x - 6$ के शून्य ज्ञात करो।

[2]

28) समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए।

[2]

$$25 + 21 + 17 + 13 + \dots + (-51)$$

29) समांतर श्रेणी 200, 196, 192, ..., -200 का कोई पद शून्य हो सकता है? कौन सा?

[2]

30) कीमत ज्ञात कीजिए :

[2]

$$\frac{5\sin^2 30^\circ + \sin^2 45^\circ - 4\tan^2 30^\circ}{2\sin 30^\circ \cos 30^\circ + \cot 45^\circ}$$

31) दो समकेन्द्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 41 और 9 हैं। बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा छोटी त्रिज्या वाले वृत्त को स्पर्श करती है, तो इस जीवा की लम्बाई ज्ञात करें।

[2]

32) O केन्द्रित वृत्त के बाहर के भाग में केन्द्र से 34 इकाई दूरी पर बिंदु P है। P में से वृत्त पर खींचा गया स्पर्शक वृत्त को Q में स्पर्श करता है। यदि PQ = 16 हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें।

[2]

33) वृत्त और वृत्त के समतल में स्थित रेखा के प्रतिच्छेदन के लिए निम्न आकृतियां बनाए।

[2]

i) $l \cap S = \emptyset$

ii) $l \cap S = \{p\}$

जहां वृत्त के बिंदुओं के समुच्चय को S से और रेखा के बिंदुओं के समुच्चय को l से दर्शाया गया है।

- 34) एक बेलनाकार दोनों ओर से अर्धगोले से बंद है तथा उसकी त्रिज्या 0.42 मीटर तथा कुल ऊँचाई 3.84 मीटर हो, तो उसमें पेट्रोल समाने की क्षमता ज्ञात कीजिए। [2]

- 35) कक्षा 10 के 45 विद्यार्थियों के वजन (कि.ग्रा.में) का एक सर्वेक्षण किया गया। जिसकी माहिती निम्नानुसार है। माहिती का मध्यस्थ ज्ञात कीजिए। [2]

वजन kg	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55
विद्यार्थियों की संख्या	2	5	8	10	7	10	3

- 36) अच्छी तरह से फेंटे गए तास के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रीति से पसंद किया जाता है। तो वह पत्ता इसकी संभावनाएँ ज्ञात कीजिए। [2]

- i) चित्रवाला हो
- ii) चिड़ी का हो
- iii) एक्सा न हो
- iv) काले रंग का एक्सा हो

विभाग - C

- किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर गणना करके दीजिए। (प्रश्न 37 से 45) (प्रत्येक 3 अंक) [18]

- 37) $p(x) = x^2 + 9x + 14$ के शुन्य, शुन्यों का योग और शुन्यों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। [3]

- 38) जिनके शुन्यों का योगफल $\frac{8}{5}$ तथा गुणनफल $\frac{3}{5}$ हो, ऐसी द्विघात बहुपदी $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a < 0$ प्राप्त करें। [3]

- 39) माता एवं पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। पांच वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। [3]
- 40) यदि द्विघात समीकरण $(k+1)x^2 - 2(k-1)x + 1 = 0$ के बीज वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। [3]
- 41) A और B के निर्देशांक क्रमशः (3, -6) और (-2, -1) हैं। \overline{AB} का B की ओर से 2:3 अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ढूँढिए। [3]
- 42) D (3, 2), E (5, 6) और F (-1, 7) क्रमशः $\triangle ABC$ की भुजाओं \overline{BC} , \overline{CA} और \overline{AB} के मध्यबिंदु हैं। A, B और C के निर्देशांक ढूँढिए। [3]
- 43) एक वृत्तांश आकार के खेत की त्रिज्या 21 m है। इसके चारों ओर दीवार बनाने का खर्च प्रतिमीटर ₹ 25 के हिसाब से ₹ 1875 होता है। उस खेत को ₹ 10 प्रति मी² की दर से जोतने का खर्च क्या होगा? [3]
- 44) 42cm त्रिज्या वाले वृत्त के केन्द्र पर एक लघु वृत्तखण्ड 120 माप का कोण बनाता है तो उस लघुवृत्त खण्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। [3]

45) एक पेटी में 1 से 100 लिखे 100 बोर्ड हैं। पेटी में से एक बोर्ड पसंद किया जाता है, तो उस बोर्ड पर [3]

- i) एक अंक वाली संख्या हो
- ii) दो अंको वाली संख्या हो
- iii) पूर्ण वर्ग संख्या हो

विभाग - D

■ किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर गणना करके दीजिए। (प्रश्न क्रमांक 46 से 53) (प्रत्येक के 4 अंक)[20]

46) दो समरूप न्युनकोण त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी अनुरूप (संगत) भुजाओं के वर्ग के समानुपात में होता है सिद्ध कीजिए। [4]

47) पायथागोरस का प्रमेय लिखिए और समकोण त्रिभुज PQR में $m \angle R = 90^\circ$ के लिए सिद्ध कीजिए।[4]

48) 6 cm रेखाखण्ड को तीन सर्वांगसम भागों में विभाजित कीजिए और रचना के मुद्रे लिखिए। [4]

49) 3 cm त्रिज्यावाला वृत्त खींचिए। वृत्त के केन्द्र से 6 cm दूर दिए गए बिंदु में से वृत्त के दो स्पर्शक खींचिए। उनका माप ज्ञात कीजिए। [4]

- 50) एक पतंग की डोरी 100 m लम्बी है और वह समक्षेत्रिज दिशा के साथ 60° माप का कोण बनाती है तो पतंग की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। [4]

(पतंग की डोरी ढीली नहीं है ऐसा माना है)

- 51) शंकु आकार के तंबू की त्रिज्या 4 m तथा तिर्यक ऊँचाई 5 m हैं। ऐसे 12 तंबू बनाने के लिए 125cm लम्बाई का कितना केनवास उपयोग होगा? यदि केनवास की कीमत ₹ 20 प्रति मीटर हो, तो 12 तंबू बनाने के लिए कितना खर्च होगा? ($\pi = 3.14$). [4]

- 52) नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण में 165 अवलोकनों का बहुलक 34.5 है। a तथा b के मूल्य ज्ञात कीजिए। [4]

वर्ग	5-14	14-23	23-32	32-41	41-50	50-59	59-68
आवृत्ति	5	11	a	53	b	16	10

- 53) नीचे दी गई माहिती पर से (किसी भी रीति से) मध्यक ज्ञात कीजिए। [4]

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
आवृत्ति	4	8	3	20	3	4	8

○○○○